



Ministry of Health & Family Welfare
Government of India

Provisional Certificate for COVID-19 Vaccination - 1st Dose

Beneficiary Details

Beneficiary Name / लाभार्थी का नाम	Ramesh Singh Kunjwal
Age / उम्र	38
Gender / लिंग	Male
ID Verified / पहचान पत्र सत्यापित	PAN Card # BLBPK6672F
Unique Health ID (UHID)	
Beneficiary Reference ID	91555671834030

Vaccination Details

Vaccine Name / वैक्सीन का नाम	COVISHIELD
Date of 1 st Dose / पहली खुराक की तारीख	31 Jul 2021 (Batch no. 4121MC028)
Next due date / अगली नियत तिथि	Between 23 Oct 2021 and 20 Nov 2021
Vaccinated by / टीका लगाने वाले का नाम	Kamna Nainwal
Vaccination at / टीकाकरण का स्थान	MBPG Degree College Haldwani 2, Nainital, Uttarakhand




“दवाई भी और कड़ाई भी।
Together, India will defeat
COVID-19”
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

In case of any adverse events, kindly contact the nearest Public Health Center/
Healthcare Worker/District Immunization Officer/State **Helpline No. 1075**

टीकाकरण पश्चात किसी प्रतिकूल घटना के होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र/स्वास्थ्य कर्मी/जिला टीकाकरण
अधिकारी/राज्य हेल्प लाइन 1075 पर सम्पर्क करें

COWIN
Winning Over COVID



This certificate can be verified by scanning the QR code at
<http://verify.cowin.gov.in>